



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 चैत्र 1941 (श10)  
(सं0 पटना 516) पटना, मंगलवार, 2 अप्रैल 2019

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

2 अप्रैल 2019

सं0 एम०-1-010/2019-21—लोक सभा का आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के आलोक में 10—किशनगंज, 11—कटिहार, 12—पूर्णियां, 26—भागलपुर एवं 27—बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।







बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
प्रवीण कुमार गुप्ता,  
संयुक्त सचिव—सह—  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

## प्ररूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिए)

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

10-किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन








क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का छायाचित्र	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
01	इन्द्रदेव पासवान		खगड़ा बी.एस.एफ., कैम्प रोड, पोस्ट, थाना व जिला – किशनगंज, पिन-855107	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
02	जावेद अख्तर		ग्राम-मियाँ बस्ती, धनतोला, थाना इस्लामपूर, जिला उत्तर दिनाजपुर (पं.बंगाल.)	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण
03	डा० मुहम्मद जावेद		ग्राम-गुआबाड़ी, पो.-छत्तरगाछ, प्रखंड+थाना पोठिया, जिला किशनगंज (बिहार)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
04	सैयद महमूद अशरफ		ग्राम-बैरिया, पो. कन्हरिया, थाना- , बायसी, जिला- पूर्णियाँ	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
05	अखतरुल ईमान		ग्राम-मोधो, पो.- मोधो, थाना- कोचाधामन, जिला- किशनगंज (बिहार), पिन-855115	ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन	पतंग
06	अलीमुद्दीन अंसारी		हाऊसिंग कॉलनी, पूर्णियाँ, पो.-पूर्णियाँ, जिला – पूर्णियाँ	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
07	प्रदीप कुमार सिंह		रामजी बाड़ी, पो.-सिंधिया, थाना- किशनगंज, जिला – किशनगंज	शिवसेना	मोतियों का हार
08	राजेन्द्र पासवान		ग्राम-महीनगाँव, पो.- हटवार, थाना-किशनगंज, जिला-किशनगंज, बिहार	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई








क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का छायाचित्र	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवर्तित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
09	शुकल मुर्मु		सोन्था, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	बाँसुरी
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
10	अजीम उद्दीन		सताल इस्तमरार, नटूवापाड़ा, थाना - बहादुरगंज, जिला - किशनगंज	निर्दलीय	बाल्टी
11	असद आलम		साकिन-दरनिया, पो.-मेहरगंज, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज, बिहार, पिन-855108	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
12	छोटे लाल महतो		चुड़ीपट्टी, कॉलेज रोड, नुनिया बस्ती, वार्ड नं. 04, पो.—किशनगंज, थाना - किशनगंज, जिला-किशनगंज, पिन-855108	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
13	राजेश कुमार दुबे		रुईधासा, किशनगंज, थाना व जिला- किशनगंज	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
14	हसेरुल		बी.बी. भरतपुर, थाना सुखानी, जिला किशनगंज	निर्दलीय	कलम की निब सात किरणों के साथ

स्थान : किशनगंज  
तारीख : 29.03.2019

(हो)- अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
10-किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

**FORM 7A***[See rule 10(1)]***List of Contesting Candidate****Election to the House of the People from the 10-Kishanganj Parliamentary Constituency.**

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised national and State Political Parties.</b>					
01	Indra Deo Paswan		Khagra, B.S.F. Camp Road, P.O.- Kishanganj, P.S. - Kishanganj , Dist.- Kishanganj, PIN-855107	BAHUMAN SAMAJ PARTY	Elephant
02	Javed Akhter		At-Miyan Basti, Dhantola, P.S.-Islampur, Dist.-Uttar Dinajpur (W.Bengal)	ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS	Flowers & Grass
03	Dr. Mohammad Jawed		At-Goabari, P.O.-Chatargachh, Block-Pothia, P.S.-Pothia, Dist.-Kishanganj (Bihar)	INDIAN NATIONAL CONGRESS	Hand
04	Syed Mahmood Ashraf		At-Bairia, P.O.-Kanhariya, P.S.-Baisi, Dist.-Purnea	JANATA DAL (UNITED)	Arrow
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised national and state political parties)</b>					
05	Akhtarul Iman		At-Maudho, P.O.-Maudho, P.S.-Kochadhaman, Dist.-Kishanganj (Bihar), PIN-855115	ALL INDIA MAJLIS-E-ITTEHADUL MUSLIMEEN	Kite
06	Alimuddin Ansari		Housing Colony, Purnea, P.O. & Dist. – Purnea	AAM AADMI PARTY	Broom
07	Pradip Kumar Singh		Ramji Bari, P.O.-Singhia, P.S.-Kishanganj, Dist.-Kishanganj	SHIV SENA	Bead Necklace

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
08	Rajendra Paswan		At-Mahingaon, P.O.-Hatwar, P.S.Kishanganj, Dist.-Kishanganj, Bihar	BAHujan MUKTI PARTY	Cot
09	Shukal Murmu		Sontha, P.S.-Bahadurganj Dist.-Kishanganj	JHARKHAND MUKTI MORCHA	Flute
<b>(iii) Other Candidates</b>					
10	Azimuddin		Satal Istamrar, Natuapara, P.S.-Bahadurganj, Dist.-Kishanganj	INDEPENDENT	Bucket
11	Asad Alam		At-Darniya, P.O.-Meharganj, P.S.-Bahadurganj, Dist.-Kishanganj (Bihar), PIN-855108	INDEPENDENT	Auto- Rickshaw
12	Chhote Lal Mahto		Churipatti, College Road, Nunia Basti, Ward No. 04, P.O.- Kishanganj, P.S.- Kishanganj, Dist. – Kishanganj, PIN-855108	INDEPENDENT	Gas Cylinder
13	Rajesh Kumar Dubey		Ruidhasa, Kishanganj, P.S.- Kishanganj, Dist.-Kishanganj	INDEPENDENT	Helicopter
14	Haserul		B.B. Bharatpur, P.S.-Sukhani, Dist.-Kishanganj	INDEPENDENT	Pen Nib with Seven Rays

Place : Kishanganj

Date : 29.03.2019

Sd/-Illegible

Assistant Returning Officer,  
10-Kishanganj Parliamentary Constituency.

## प्रारूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

11 – कटिहार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा निर्वाचन

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का छायाचित्र	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
01	तारिक अनवर		जी०-21, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-110013	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
02	दुलाल चन्द्र गोस्वामी		ग्राम-करीमगंज, पोस्ट-बालूपाड़ा, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार (बिहार), 854317	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
03	मुहम्मद शकुर		सा०-बंकाधार, पो०-सेमापुर फैक्ट्री, थाना-बरारी	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी
04	शिवनंदन मंडल		ग्रा०-परसा, पो०-बुद्धनगर, था०-प्राणपुर, जिला-कटिहार	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
05	अब्दुर रहमान		ग्राम-कुर्सेल, थाना+पो०-मनसाही, जिला-कटिहार	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	एअरकंडीस्नर
06	गंगा केवट		ग्राम+पो०-केहुनिया, थाना-प्राणपुर, जिला-कटिहार	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	फूलगोभी
07	बासुकीनाथ साह		नयाटोला, डहेरिया, कटिहार	भारतीय बहु जन काँग्रेस	मोतियों का हार
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
08	मारांग हांसदा		ग्राम-अम्बाडिहा, पो०-मुजवरटाल, थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार	निर्दलीय	चारपाई
09	समीर कुमार झा		ग्राम-रामपुर (कामत), पो०-हसनगंज, जिला-कटिहार	निर्दलीय	गुब्बारा

स्थान : समाहरणालय, कटिहार










तारीख : 30.03.2019

(ह०)- अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

**FORM 7 A**  
[See rule 10(1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

**Election to the House of the People from the 11-KATIHAR Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised national and State Political Parties.</b>					
1	TARIQ ANWAR		G-21, Nizamuddin West, New Delhi-110013	INDIAN NATIONAL CONGRESS	HAND
2	DULAL CHANDRA GOSWAMI		At-Karimganj, Post-Balupara, PS-Barsoi, Dist-Katihar (Bihar), 854317	JANATA DAL (UNITED)	ARROW
3	MUHAMMAD SHAKUR		Vill-Bankadhar, PO-Semapur Factory, PS-Barari	NATIONALIST CONGRESS PARTY	CLOCK
4	SHIVNANDAN MANDAL		Vill-Parsa, PO-Budhnagar, PS-Pranpur, Dist-Katihar	BAHUKAN SAMAJ PARTY	ELEPHANT
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised national and state political parties)</b>					
5	ABDUR RAHMAN		Vill-Kursel, PS+PO-Mansahi, Dist-Katihar	PEOPLES PARTY OF INDIA (DEMOCRATIC)	AIR CONDITIONER
6	GANGA KEBAT		Vill+PO-Kehunia, PS-Pranpur, Dist-Katihar	RASHTRIYA JANSAMBHAVNA PARTY	CAULIFLOWER
7	BASUKINATH SAH		Nayatola, Daheriya, Katihar	BHARATIYA BAHUKAN CONGRESS	BEAD NECKLACE
<b>(iii) Other Candidates</b>					
8	MARANG HANSDA		Vill-Ambadiha, PO-Muzwartal, PS-Manihari, Dist-Katihar	INDEPENDENT	COT
9	SAMIR KUMAR JHA		Vill-Rampur (Kamat), PO-Hasanganj, Dist-Katihar	INDEPENDENT	BALLOON

Place : Collectorate, Katihar  
Date : 29.03.2019

Sd/-Illegible  
Assistant Returning Officer,  
11- Katihar Parliamentary Constituency.

## प्ररूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिए)

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

12-पूर्णिमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का छायाचित्र	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
01	उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह		मौल बाबू हाता, मधुबनी, जिला-पूर्णिमा	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
02	जितेन्द्र उराब		हासदा कोठी, वार्ड नं०-35, पो०-गुलाबबाग, थाना-सदर, जिला-पूर्णिमा	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
03	संतोष कुमार		मोहल्ला-रामबाग, थाना-सदर, जिला-पूर्णिमा	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
04	मंजू मुर्मू		सा०-रहमत नगर बक्सा घाट रोड, जिला-पूर्णिमा	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	ऑटो-रिक्शा
05	सनोज कुमार चौहान		ग्राम-सबदलपुर, चौहान टोला, वार्ड सं०-15, पो०-महमदिया, थाना-कसबा, जिला-पूर्णिमा	बिहार लोक निर्माण दल	बक्सा
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
06	मो० अख्तर अली		मुजफ्फर अहमद नगर, थाना-सहायक के० हाट, जिला-पूर्णिमा	निर्दलीय	सेब
07	अनिरुध मेहता		ग्राम+पो०-रिकाबगंज, पूर्णिमा चौक, जिला-पूर्णिमा	निर्दलीय	गन्ना किसान
08	अर्जुन सिंह		शिवाजी कॉलोनी थाना-के०हाट, जिला-पूर्णिमा	निर्दलीय	फूलगोभी
09	अशोक कुमार साह		लाईन बाजार, शिव मंदिर के निकट, थाना-के०हाट, जिला-पूर्णिमा	निर्दलीय	नारियल फार्म



क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का छायाचित्र	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवर्तित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
10	अशोक कुमार सिंह		रामबाग थाना-सदर, जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	कैची
11	डॉ० मृत्युंजय कुमार झा		श्रीनगर हाता (बाल सुधार गृह के दक्षिण), थाना-कै०हाट, जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	स्टैथोस्कोप
12	राजीव कुमार सिंह		ग्राम+पोस्ट-नगरह थाना- नौगछिया, जिला-भागलपुर	निर्दलीय	नाशपाती
13	राजेश कुमार		काली प्रसाद टोला, मधुबनी, जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	पेन ड्राइव
14	शुभाष कुमार ठाकुर		C/O अभिक सेन ब्लिस कॉटेज, खजांची हाट, जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	कोट
15	शोभा सोरेन		केमई सोन्दीप, भवानीपुर जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	चारपाई
16	सागीर अहमद		ग्राम-गिदरमारी, पो०-अहिलगाँव थाना- जलालगढ़ जिला-पूर्णिया	निर्दलीय	कड़ाही




स्थान : पूर्णियाँ  
तारीख : 29.03.2019








(ह०)- अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
12-पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

**FORM 7 A**

[See rule 10(1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES****Election to the House of the People from the 12- PURNIA Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognized National and State political Parties</b>					
01	Uday Singh Alias Pappu Singh		Maul Babu Hata Madhubani, Purnia	Indian National Congress	Hand
02	Jitendra Urab		Hasda Kothi, Ward No-35, Post-Gulabbagh, PS- Sadar, Purnia	Bahujan Samaj Party	Elephant
03	Santosh Kumar		Mohalla-Rambag PS-Sadar Dist-Purnia	Janata Dal (United)	Arrow
<b>(ii) Candidates of registered Political parties (Other than recognized National and State Political Parties)</b>					
04	Manju Murmu		At-Rahmat Nagar Baxa Ghat Road Purnia	Jharkhand Mukti Morcha	Auto-Rickshaw
05	Sanoj Kumar Chauhan		Vill-Sabdalpur Chauhan Tola, Ward No-15, PO- Mahmadiya, PS- Kasba, Purnia	Bihar Lok Nirman Dal	Box
<b>(iii) Other Candidates</b>					
06	Md. Akhtar Ali		Muzaffar Ahmad Nagar PS-Sahayak K. Hat, Purnia	Independent	Apple
07	Anirudh Mehta		Vill+PO-Rikabganj, Purnia Chowk, Purnia	Independent	Ganna Kisan
08	Arjun Singh		Shivajee Colony PS-K.hat, Purnia	Independent	Cauliflower
09	Ashok Kumar Sah		Line Bazar, Near Shiv Mandir, PS- K-Hat, Purnia	Independent	Coconut Farm

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
10	Ashok Kumar Singh		Rambagh, PS-Sadar, Purnia	Independent	Scissors
11	Dr. Mritunjay Kumar Jha		Srinagar Hata (Bal Sudhar Grih ke dakshin) PS-K.hat, Purnia	Independent	Stethoscope
12	Rajiv Kumar Singh		Vill-Nagrah, PS- Naugachia, Bhagalpur	Independent	Pears
13	Rajesh Kumar		Kali Prasad Tola, Madhubani, Purnia	Independent	Pen Drive
14	Shubhash Kumar Thakur		C/O-Abhik Sen Bliss Cottage, Khajanchi Hat, Purnia	Independent	Coat
15	Shobha Soren		Kemai Sondip, Bhawanipur, Purnia	Independent	Cot
16	Sageer Ahmad		Vill- Gidarmari, PO- Ahilgaon, PS- Jalalgarh, Purnia	Independent	Pan

Place : **PURNIA**  
Date : **29.03.2019**

**Sd/-Illegible**  
**Assistant Returning Officer,**  
**12- PURNIA Parliamentary Constituency.**

## प्ररूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिए)

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

26-भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दलीय संबंधता*	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	अजय कुमार मंडल		ग्राम-गोलसड़क कुलकुलिया, पोस्ट-घोघा बाजार, थाना-कहलगाँव जिला-भागलपुर, पिन कोड- 813205	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2	मोहम्मद आशिक इब्राहिमी		15/2, हारुण नगर 2, फुलवारी शरीफ पटना 801505	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल		ग्राम-राघोपुर, पोस्ट-खरीक बाजार, एस०ओ० थाना-परवत्ता अनुमंडल- नवगछिया, जिला-भागलपुर,	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
4	दीपक कुमार		ग्राम- दिग्घी, पो०- शहजादपुर, थाना- नाथनगर, जिला-भागलपुर पिन- 812005	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	बैटरी टार्च
5	सत्येन्द्र कुमार		मोहल्ला-तिलकामांझी, पोस्ट एवं थाना- तिलकामांझी, जिला-भागलपुर	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
6	सुशील कुमार दास		चुनिहारी टोला पो०- भागलपुर सिटी, थाना- कोतवाली, जिला- भागलपुर	भारतीय दलित पार्टी	जूता
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
7	अभिषेक प्रियदर्शी		ग्राम+पो०-मथुरापुर, भागलपुर बिहार	निर्दलीय	सीटी
8	नुरुल्लाह		ग्राम-सुन्दरपुर, पोस्ट+थाना- पीरपैती, जिला भागलपुर (बिहार) पिन कोड- 813209	निर्दलीय	बाल्टी
9	सुनील कुमार		गुमटी न०-3 भीखनपुर, इशाकचक भागलपुर	निर्दलीय	माईक










स्थान : भागलपुर  
तारीख : 29.03.2019

(ह०)- अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
26-भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

**FORM 7 A**  
[See rule 10(1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

**Election to the House of the People from the 26- Bhagalpur Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised National and State Political Parties</b>					
1	AJAY KUMAR MANDAL		Vill-Gol sarak Kulkuliya, Post-Ghogha Bazar, PS-Kahalgaon Dist-Bhagalpur, Pin Code-813205	Janata Dal (United)	Arrow
2	MOHAMMAD ASHIQ IBRAHIMI		15/2, Haroon Nagar 2, Phulwari Sharif Patna 801505	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	SHAILESH KUMAR ALIAS VULO MANDAL		Vill-Raghopur P.O.-Kharik Bazar S.O. P.S.-Parbatta Sub-Div-Naugachhia Distt-Bhagalpur	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
<b>(ii) Candidates of registered Political parties (Other than recognized National and State Political Parties)</b>					
4	DEEPAK KUMAR		Vill-Digghi, PO-Shahjadpur, PS-Nathnagar, Dist-Bhagalpur Pin-812005	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Battery Torch
5	SATYENDRA KUMAR		Mohalla-Tilkamanjhi PO+PS-Tilkamanjhi Dist-Bhagalpur	Aam Aadmi Party	Broom
6	SUSHIL KUMAR DAS		Chunihari Tola PO-Bhagalpur City Dist-Bhagalpur	Bhartiya Dalit Party	Shoe
<b>(iii) Other Candidates</b>					
7	ABHISHEK PRIYADARSHI		At+PO-Mathurapur, Via-Kahalgaon Dist-Bhagalpur, Bihar	Independent	Whistle
8	NURULLAH		At-Sundarpur, PO+PS-Pirpanti Dist-Bhagalpur, Bihar 813209	Independent	Bucket
9	SUNIL KUMAR		Gumti No.-3 Bhikhanpur, Ishakchak Bhagalpur 812001	Independent	Mike

Place : Bhagalpur  
Date : 29.03.2019

Sd/-Illegible  
Assistant Returning Officer,  
26- Bhagalpur Parliamentary Constituency.

## प्ररूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिए)

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

27-बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन


क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता *	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	गिरिधारी यादव		ग्राम-ढड़वा, पो0-सिमुलतला (खरना), थाना-चांदन, जिला-बांका, (बिहार)	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2	जय प्रकाश नारायण यादव		ग्राम-बरहट, टोला-सलैया पो0-बरहट, थाना-बरहट, जिला-जमुई	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
3	मो० रफीक आलम		ग्राम-ताहिरपुर, पो0-नाननपैर, थाना-धोरैया, जिला-बांका	बहु जन समाज पार्टी	हाथी

**(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)**

4	कैलाश प्रसाद सिंह		ग्राम-आनंद कालोनी, उषा सदन, अलीगंज, बांका, पो0-बांका, थाना-बांका, जिला-बांका	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी
5	नीलू देवी		ग्राम-मोहनपुर, पो0-सिंहनान, थाना-रजौन, जिला-बांका	भारतीय दलित पार्टी	एअरकंडीस्नर
6	फैसल अंसारी		ग्राम-हरेलवा, पो0-बघवा, जिला-बांका	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
7	राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव		ग्राम-कामदेवडीह, पो0-कामदेवडीह, थाना-कटोरिया, जिला-बांका	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	अलमारी

**(iii) अन्य अभ्यर्थी**

8	अमरजीत कुमार		ग्राम-गचिया, पो0-धोरैया, थाना-धोरैया, जिला-बांका	निर्दलीय	बल्ला
9	उमाकान्त यादव		ग्राम-टुपाडीह (सिमरामोड़), पो0-बौंसी, थाना-बौंसी, जिला-बांका, (बिहार)	निर्दलीय	सेब

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता *	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
10	एमपी यादव		ग्राम-करहरिया, पो०-बांका, थाना-बांका, जिला-बांका	निर्दलीय	गुब्बारा
11	नरेश यादव		ग्राम-छप्पा, पो०-छप्पा, थाना-झाझा, जिला-जमुई	निर्दलीय	मोतियों का हार
12	पवन ठाकुर		ग्राम-ओड़हारा, पो०-ओड़हारा, थाना-रजौन, जिला-बांका	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
13	पुतुल कुमारी		ग्राम-नयागांव, पो०-नयागांव, भाया-गिद्धौर, जिला-जमुई	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
14	प्रमोद सिंह वेलडन		ग्राम-रजौन, पो०-रजौन, वेलडन कॉलनी रजौन, थाना-रजौन, जिला-बांका	निर्दलीय	चप्पलें
15	प्रवीण कुमार झा		ग्राम-बाजा, पो०-रामचन्द्रपुर ईटहरी, थाना-अमरपुर, जिला-बांका	निर्दलीय	बेबी वॉकर
16	मनोज कुमार साह		ग्राम-तहवलनगर, पो०-शाहकुंड, थाना-शाहकुंड, जिला-भागलपुर	निर्दलीय	बाँसुरी
17	मृत्युंजय राय		ग्राम-जगतपुर, वार्ड न०-24, बांका नगर परिषद, पो०-बांका, थाना-बांका, जिला-बांका	निर्दलीय	ब्लैक बोर्ड
18	मोहम्मद मुख्तार आलम		ग्राम-सुईया, पो०-सुईया, थाना-सुईया, जिला-बांका	निर्दलीय	माचिस की डिब्बी

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता *	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
19	संजीव कुमार कुणाल		ग्राम-अलीगंज, सालिक रोड, वार्ड नं०-15, पो०-बांका, थाना-बांका, जिला-बांका	निर्दलीय	कम्प्यूटर
20	सैयद अलमदार हुसैन		ग्राम-शिपाहपुर, पो०-उमानगर, थाना-अहियापुर, अंचल- मुशहरी, जिला- मुजफ्फरपुर	निर्दलीय	चूड़ियाँ

स्थान : बांका  
तारीख : 29.03.2019

(ह०)- अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
27- बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।














**FORM 7 A**  
[See rule 10(1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

**Election to the House of the People from the 27- Banka Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised National and State Political Parties</b>					
1	Giridhari Yadav		Vill- Dhadwa, P.O- Simultala, (Kharna) P.S- Chandan, District- Banka	Janata Dal (United)	Arrow
2	Jai Prakash Narayan Yadav		Vill- Barhat Tola Salaiya, P.O- Barhat, P.S- Barhat, District- Jamui	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
3	Md Rafique Alam		Vill- Tahirpur, P.O- Nananpair, P.S- Dhoraiya, District- Banka	Bahujan Samaj Party	Elephant
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)</b>					
4	Kailash Prasad Singh		Vill- Anand Colony Usha Sadan, Aliganj, Banka, P.O- Banka, P.S- Banka, District- Banka	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	Key
5	Neelu Devi		Vill- Mohanpur, P.O- Sinhnan, P.S- Rajoun, District- Banka	Bhartiya Dalit Party	Air Conditioner
6	Phesal Ansari		Vill- Harelwa, P.O- Baughwa, District- Banka	Bhartiya Momin Front	Glass Tumbler
7	Rajkishore Prasad alias Pappu Yadav		Vill- Kamdeodih, P.O- Kamdeodih, P.S- Katoriya District- Banka	Jharkhand Mukti Morcha	Almirah
<b>(iii) Other candidates.</b>					
8	Amarjeet Kumar		Vill- Gachiya, P.O- Dhoraiya, P.S- Dhouraiya District- Banka	Independent	Bat
9	Umakant Yadav		Vill- Tupadih (Simramore), P.O- Bounsi, P.S- Bounsi, District- Banka	Independent	Apple

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
10	Mp Yadav		Vill- Karhariya, P.O- Banka, P.S-Banka, District- Banka	Independent	Balloon
11	Naresh Yadav		Vill- Chhappa, P.O- Chhappa, P.S- Jhajha, District- Jamui	Independent	Bead Necklace
12	Pawan Thakur		Vill- Orhara, P.O- Orhara, P.S- Rajoun, District- Banka	Independent	Auto- Rickshaw
13	Putul Kumari		At + P.O- Nayagaon, Via- Gidhour, District- Jamui	Independent	Gas Cylinder
14	Pramod Singh Weldone		Vill+P.O-Rajoun, Weldon Colony Rajoun, P.S- Rajoun, District- Banka	Independent	Chappals
15	Pravin Kumar Jha		Vill-Baja, P.O- Ramchandrapur Itahari, P.S- Amarpur, District- Banka	Independent	Baby Walker
16	Manoj Kumar Sah		Vill- Tahwalnagar, P.O- Shahkund, P.S- Shahkund, District- Bhagalpur	Independent	Flute
17	Mritunjay Roy		Vill- Jagatpur, Ward no. 24 P.O- Banka, P.S- Banka, District- Banka	Independent	Black Board
18	Mohammad Mukhtar Alam		Vill- Suiya, P.O- Suiya, P.S- Suiya, District- Banka	Independent	Matchbox
19	Sanjiv Kumar Kunal		Vill- Aliganj, Salik Road Ward no. 15, P.O- Banka, P.S- Banka, District- Banka	Independent	Computer

Sl. No.	Name of the Candidate	Photographs of Candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
20	Syed Alamdar Hussain		Vill- Shipahpur, P.O- Umanagar, P.S- Ahiyapur, Anchal- Mushari, District- Muzaffarpur	Independent	Bangles

Place : **Banka**  
Date : **29.03.2019**

**Sd/-Illegible**  
**Assistant Returning Officer,**  
**27- Banka Parliamentary Constituency.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 516-571+50 डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>